

To, The Listing Department, National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (E),Mumbai-400051, Maharashtra

Symbol: ORIANA

Sub:Newspaper Publication For Notice Of AGM

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to the provisions of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of the following newspaper advertisement published for giving public notice to the shareholders for intimating that the 11th Annual General Meeting of the company will be held on Friday, September 27, 2024 at 1:00 p.m. (IST) through Video Conferencing or other Audio Visual Means:

S.NO.	Name of New <mark>spaper</mark> (s)	Edition	Publication Date
1.	The Financial Express "(English)	New Delhi	September 05,2024
2.	"Jansatta"(Hindi)	New Delhi	September 05,2024

Request you to please take the same on your record.

Thanking You,

Yours sincerely,

For Oriana Power Limited

Tanvi Singh Company Secretary & Compliance Officer M.No.A69061

Encl: a/a

ORIANA POWER LIMITED (Formerly Known as Oriana Power Private Limited)

Place: Noida

Date: 05-09-2024

<u>CIN:</u> L35990DL2013PLC248685, <u>Website:</u> www.orianapower.com, <u>Tel:</u> +91-120-411-4695

 $\underline{\textbf{Registered Office:}} \hspace{0.1cm} \textbf{Flat No. 412A, Building No. 43, Chiranjiv Tower, Nehru Place, New Delhi, South Delhi-110019.} \\$

Corporate Office: Third Floor Plot No 19 and 20, Sector 125 Noida Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh, Amity

University, Gautam Buddha Nagar, Dadri, Uttar Pradesh, India, 201313

FINANCIAL EXPRESS

ontinued from previous page

RISKS TO INVESTORS

- The average cost of acquisition per Equity Share by our Promoters, i.e., Mr. Abhay Kumar Chandalia and Mr. Vikash Kumar Jain at the date of Draft Red Herring Prospectus are 1.52 and 1.34 respectively.
- At the date of the Draft Red Herring Prospectus, the Weighted Average cost of acquisition per Equity Share by our Promoters i.e., Mr. Abhay Kumar Chandalia and Mr. Vikash Kumar Jain is Nil.
- and 23.95% respectively. Our company may, in consultation with the BRLM, consider participation by the Anchor Investor. The Anchor Investor Bid/Offer period shall be

Weighted Average Return on Net worth on Consolidated and standalone financials for Financial Year ending 2024, 2023 and 2022 is 24.99%

- one working day prior to the Bid/ Offer opening date in accordance with SEBI ICDR Regulations, 2018. Our company may, in consultation with the BRLM, consider closing the Bid/Offer period for QIB one working day prior to the Bid/Offer Closing Date in accordance with the SEBI ICDR Regulations, 2018.
- The details of the Equity Shares held by our Promoters, which are locked in for a period of 3 years from the date of Allotment in the Offer are given

below:

Name of Promoter	and when made fully paid-up	Nature of Transaction	No. of Equity Shares	FaceValue (Rs.)	Price per Equity Share (Rs.)	post-Offer paid-up capital (%)	Lock in Period
Abhay Kumar Chandalia	09-03-2024	Bonus issue	12,40,000	10	NIL	10.11%	3 years
Vikash Kumar Jain	09-03-2024	Bonus issue	12,40,000	10	NIL	10.11%	3 years

In case of revision in the price band, the bid/ Issue period shall be extended for at least three (3) additional working days after such revision in the price band, subject to the bid/issue period not exceeding a total of ten (10) working days any revision in the price band, and the revised bid/ issue Period, if applicable shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchange by issuing press release and by and also by indicating the change on the website of BRLM and by intimation to Self-Certified Syndicate Banks (SCCB's), the sponsor banks and the designated intermediaries, as applicable. In case of force majeure, Banking strike or similar circumstances, the company may for the reason recorded in writing, extend the Bid/Issue period by at least Three (3) additional working days subject to total bid/Issue period not exceeding Ten (10) working days.

The issue is being made in terms of Rule 19 (2)(b)(i) of the Securities Contract (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 253 of SEBI ICDR Regulations, the issue is being made for at least 25% of the post issue paid up Equity Share capital of our Company. The issue is being made through the Book Building Process wherein not more than 50% of the issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIB's" and such portion to the "QIB Portion") provided that our company may in consultation with the BRLM may allocate upto 60% of the QIB portion to the Anchor Investor on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"). One third of the Anchor Investor Portion shall be reserved for the Domestic Mutual Funds, subject to valid bids being received from the domestic mutual funds at or above the Anchor Investor allocation price. Further, 5% of the QIB portion (excluding the Anchor Investor Portion) shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual funds only, and the reminder of the QIB portion shall be available for allocation on proportionate basis to all QIBs Bidders (other than Anchor Investors), including mutual funds, subject to valid bids being received at or above the issue price. Further, not less than 15% of the issue shall be available for allocation on proportionate basis to Non-Institutional Bidder and not less than 35% of the issue shall be available for allocation to the Retail Individual bidders in accordance with the SEBI ICDF Regulations subject to valid bids being received or above the issue price. All potential bidders, other than Anchor Investor, are required to mandatorily utilize the application supported by blocked amount ("ASBA") process providing details of their respective bank account (including UPIID in case of RIBs) which will be blocked by SCSBs, or the bank account linked with the UPLID, as applicable, to participate in the issue. Anchor Investors are not permitted to participate in the Anchor Investor Portion through the ASBA process. For Details, please see the section titled "Issue Procedure" on page 342 of the Red Herring Prospectus.

PROPOSED LISTING:

The Equity Shares offered through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE ("BSE SME"), in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time. Our Company has received an In-Principle approval letter date August 21, 2024, from BSE Limited for using its name in this offer document for listing of our shares on the BSE SME. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the BSE Limited.

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"):

Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Offer Document was not filed with SEBI. In terms of the SEBI ICDR Regulations, SEBI shall not Issue any observations on the Offer Document. Hence, there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire "SEBI Disclaimer Clause" on 325 of the Red Herring Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF SME PLATFORM OF BSE LIMITED (DESIGNATED STOCK EXCHANGE):

It is to be distinctly understood that the permission given by the BSE Limited ("BSE") should not in any way be deemed or construed that the contents of the Red Herring Prospectus or the price band at which the Equity Shares are offered for bidding has been cleared, solicited or approved by BSE nor does it certify the correctness accuracy or completeness of any of the contents of the Red Herring Prospectus. The investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus for the full text of the "Disclaimer Clause of the SME Platform of the BSE Limited" on page 327 of the Red Herring Prospectus.

This being the first public Issue of our Company, there has been no formal market for the Equity Shares. The face value of the Equity Shares is Rs. 10/- each and the offer price is [•] times of the face value of the equity shares. The Issue Price (determined and justified by our Company in consultation with the Book Running Lead Manager as stated in "Basis for Issue Price" on page 116 should not be taken to be indicative of the market price of the Equity Shares are listed. No assurance can be given regarding an active or sustained trading in the Equity Shares or regarding the price at which the Equity Shares will be traded after listing.

Bidders/Applicants should note that on the basis of PAN, DP ID And Client ID as provided in the bid cum application form, the Bidder/Applicants may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Issue, any requested Demographic details of the Bidders/ Applicants as available on the records of the depositories. These Demographic details may be used, among other things, for or unblocking of ASBA account or for other correspondence related to an issue. Bidders/ Applicants are advised to update any changes to their demographic details as available in the records of the depository participants to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the demographic details would be at the applicant's sole risk. Bidders/ Applicants should ensure that PAN, DP ID and the Client ID are correctly filled in the bid cum application form. The PAN, DP ID and the Client ID provided in the bid cum application form should match with the PAN, DP ID and the Client ID available in the depository database, otherwise the bid cum application form is liable to be rejected. Bidders/ Applicant should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum application form is active.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue including the risks involved. The Equity Shares issued in the Issue have neither been recommended nor approved by Securities and Exchange Board of India nor does Securities and Exchange Board of India guarantee the accuracy or adequacy of Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section titled "Risk Factors" beginning on page 28 of Red Herring Prospectus.

CREDIT RATING: This being the issue of Equity Shares, no credit rating is required

DEBENTURE TRUSTEES: This being the issue of Equity Shares, the appointment of Trustees is not required.

IPO GRADING: Since this issue is made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, there is no requirement of appointing an IPO Grading Agency.

BASIS OF ISSUE PRICE; The Issue Price is determined by the Company in consultation with the Lead Manager. The financial data presented in section "Basis of Issue Price" on page no. 116 of the Red Herring Prospectus are based on Company's Restated Financial Statements. Investors should also refer to the section titled "Risk factors" and "Restated Financial Statement" on page no. 28 and 233 respectively of the Red Herring Prospectus.

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF OUR COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects and other objects of our Company

ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER SECTION 30 OF THE COMPANIES ACT, 2013

see "History and Certain Corporate Matters" on page 189 of the Red Herring Prospectus. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 446 of the Red Herring Prospectus. LIABILITY OF MEMBERS OF THE COMPANY: Limited by shares.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The Authorised share capital of the Company is Rs. 15.00.00.000/- divided 1.50.00.000 Equity Shares of ₹ 10/- each. The Issued, Subscribed, and Paid-Up share capital of the Company before the Issue is Rs. 9,01,89,030/- divided into 90,18,903 Equity Shares of ₹ 10/each. For details of the Capital Structure, see chapter titled "Capital Structure" beginning on page 75 of the Red Herring Prospectus.

SKYLINE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED

Phase - I, New Delhi-110020

Tel: +91-11-40450193-97

Fax No: +91-11-26812683

Website: www.skylinerta.com

Contact Person: Mr. Pawan Bisht

CIN: U74899DL1995PTC071324

Email: compliances@skylinerta.com

SEBI Registration Number: INR000003241

Address: D-153 A, 1st Floor, Okhla Industrial Area

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company: Rena Jain - 8,750 Equity Shares and Shilpa Jain - 1,250 Equity Share, Equity Shares of ₹10/- each.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER

Narnolia^a

NARNOLIA FINANCIAL SERVICES LIMITED

Address: 201, 2nd Floor, Marble Arch, 236 B A.J.C Bo Road, Kolkata, West Bengal-700020, India

Tel: +91-8130678743; 033-40501500 Email: pankaj.passi@narnolia.com; ipo@narnolia.com

Contact Person: Mr. Pankaj Pasi

Website: www.narnolia.com

SEBI registration number: INM000010791 CIN: U51909WB1995PLC072876

REGISTRAR TO THE ISSUE COMPLIANCE OFFICER Mr. Kumar Rishi Skyline

Address: B-35, Lower Ground Floor, South Extension Part-II, New Delhi- 110049.

COMPANY SECRETARY AND

Tel.: 011-49084044 E-mail: info@sharesamadhan.com

Website: www.sharesamadhan.com

Compliance Officer, the Lead Manager or the Registrar to the Issue, in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of allotment, noncredit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders and non-receipt of funds by electronic mode etc.

Investors can contact our Company Secretary and

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager to the Issue at www.narnolia.com. website of company at www.sharesamadhan.com and websites of stock exchange at www.bseindia.com.

(Telephone: 011 - 49084044) Lead Manager: Narnolia Financial Services Limited (Telephone: +91-8130678743; 033-40501500). Bid-cum-application Forms will also be available on the website of BSE (www.bseindia.com) and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the Stock Exchange and SEBI. APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): The investors are required to fill the application form and submit the same to the relevant SCSBs at the specific locations or registered brokers at the broker centers or RTA or DP's. The SCSB's will block the amount in the account as per the authority contained in application

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Share Samadhan Limited

form. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund. For more details on the ASBA process, please refer to the details given in application forms and Red Herring Prospectus and also please refer to the chapter titled "Issue Procedure" on page 342 of the Red Herring Prospectus. APPLICATION SUPPORTED WITH UNIFIED PAYMENTS INTERFACE: Investors are advised to carefully refer SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated

November 01, 2018 and as modified through its SEBI circular (SEBI/HO/CFD/ DIL2/CIR/P/2019/50) dated April 3, 2019, SEBI circular (SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2019/76) dated June 28, 2019, SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2019/85 dated July 26, 2019, SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2019/133 dated November 08, 2019, SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/50 dated March 30, 2020, SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2021/2480/1/M dated March 16, 2021, SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2021/47 dated March 31, 2021, SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/DIL2/P/CIR/2021/570 dated June 2, 2021, SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2022/45 dated April 5, 2022 and SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2022/51 dated April 20, 2022 and any subsequent circulars or notifications issued by SEBI in this regard for the procedure to be followed for applying through UPI. Retail Individual Investor have to apply through UPI Mechanism. Retail Individual Investor whose bank is not live on UPI as on date of this circular, may use the other alternate channels available to them viz. Submission of application form with SCSBs/ using the facility linked online trading, demat and bank account list. For further details, please refer to the chapter titled "Issue Procedure" beginning on page 342 of the Red Herring Prospectus.

Sponsor Bank to the Issue: Yes Bank Limited

Place: Delhi

Date: September 05, 2024

Banker to the Issue, Escrow Collection Bank and Refund Banker: Yes Bank Limited

Investor should read the Red Herring Prospectus carefully, including the "Risk Factors" beginning on page 28 of the Red Herring Prospectus before making any investment decision.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

For SHARE SAMADHAN LIMITED On Behalf of the Board of Directors

Abhay Kumar Chandalia (Managing Director)

Share Samadhan Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the Red Herring Prospectus with Registrar of Companies, Delhi on September 03, 2024, which is available on the website of lead manager to the issue at www.narnolia.com, website of company at www.sharesamadhan.com and websites of BSE i.e. www.bseindia.com, respectively. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see section titled "Risk Factors" beginning on page 28 of the Red Herring Prospectus. Potential investors should not rely on the Red Herring Prospectus for making any investment decision.

The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and any applicable U.S. state securities laws. There will be no public offering in the United States and the securities being offered in this announcement are not being offered or sold in the United States.

ROLLATAINERS LIMITED CIN: L21014HR1968PLC004844

1. In reference to above tender, the due date has been extended from

All other terms & conditions remain unchanged. The Corrigendum has been published on website www.ireps.gov.in.

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

NOTICE OF 53RD ANNUAL GENERAL MEETING, E **VOTING AND BOOK CLOSURE**

Regd. Off.: Plot No. 73-74, Phase- III, Industrial Area, Dharuhera,

District-Rewari Rewari 123106, Phone: 01274-243326, 242220,

E-mail: cs.rollatainers@gmail.com; Website: www.rollatainers.in

Notice is hereby given to the Members of Rolltainers Limited["Company"] that the 53" Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Friday, 27th September 2024 at 10:00 A.M. at the Registered Office of the Company at Plot No. 73-74, Phase- III, Industrial Area,

Dharuhera, District-Rewari 123106, to transact the businesses as set out in the notice of AGM. In compliance with the circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI), the electronic

copies of Notice of the AGM alongwith the Annual Report for the Financial Year 2032-24 have been sent to shareholders whose name appear in the register of members as at the closing hours of business on Friday, 30" August 2024 and whose email address are registered with the depository participants or with the Company or M/s. Beetal Financial & Computer Services (P)Limied, Registrar & Share Transfer Agent, the emailing of the said documents has been completed on Wednesday, 04" September 2024. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant applicable rules, as amended and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is also given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from September 21, 2024 to September 27, 2024 (both days inclusive) for the purpose of 53rd AGM of

the Company. Further the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at 53[™] Annual General Meeting (AGM) by electronic means ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (herein after referred as "CDSL") as agency to provide remote e-voting facility.

Members of the Company holding shares either in physical form or in demateialized form, along with person whose names recorded in the Register of members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date of 20° September 2024 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

Further, The Company has appointed Mr. Sachin Khurana, Proprietor of M/s S. Khurana & Associates, Practicing Company Secretary (COP- 13212) to act as the Scrutinizer for conducting the e-voting process/ballot process in a fair and transparent manner. The result of remote e-voting and voting during the AGM shall be declared not later than 48 hours from the conclusion of AGM. The declared results along with Scruitinizer's Report shall be placed on the website of the Company at www.rollatainers.in and also on the websites of Bombay Stock Exchange and National Stock

www.bseindia.com and www.nseindia.com The Notice of AGM and Annual Report 2023-24 is available at company's website at www.rollatainers.in and CDSL website www.evotingindia.com and also at BSE Website i.e www.bseindia.com and NSE website i.e. www.nseindia.com.

Exchange of India on which the shares of the Company are listed i.e.

For the detailed instructions pertaining to remote e-voting, Members may refer in the section 'Notes' in the Notice of the 53°° AGM.

Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the meeting may attend the meeting held in physical mode but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

If you have any queries or issues regarding E-Voting you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 02223058738 and 022-23058542/43.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and and in particular, instructions for joining the AGM, the manner of casting vote through Remote E-Voting or voting during the AGM.

For ROLLATAINERS LIMITED

AARTI JAIN Chairperson DIN: 00143244

B. P. CAPITAL LIMITED

CIN NO.: L74899HR1994PLC072042 REGD.OFFICE: Plot No- 138, Roz-Ka-Meo Industrial Area, Sohna (Distt. Mewat), Haryana-122103 Phones: 0124-2362471 Email: bpcapitallimited@gmail.com, Website: www.bpcapital.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Saturday, 28th September, 2024 at 10.00 A.M. at 138, Roz- Ka - Meo, Industria Area Sohna, Distt. Mewat-122 103, Haryana to transact the business set out in notice dated 02nd September, 2024 of the AGM. The Notice of AGM and Annual Report for the F.Y. 2023-24 has been sent to all the members through permitted mode on 04th September, 2024

Pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 along with the applicable Rules made there under, it is hereby intimated that the Register of Members and share transfer books of the Company will remain closed from Sunday, 22nd September, 2024 to Saturday, 28th September, 2024 for the purpose of AGM. In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20

of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the Company has

provided electronic voting facility for transacting all the business items as mentioned in the AGM notice dated 02nd September, 2024 through the Remote e-voting facility on the platform of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). Remote E-voting will commence on 25thSeptember, 2024 at 09:00 A.M. and end on 27thSeptember, 2024 at 5.00 P.M. No Remote e-voting shall be allowed beyond the said date and time. The notice of the Annual General Meeting along with Remote e-voting instructions has also been displayed on the website of the Company www.bpcapital.in and on the website of the Agency www.evotingindia.com. The Members of Company holding shares as on Saturday. 21st September, 2024 may cast their vote Electronically through Remote E-voting platform of CDSL at www.evotingindia.com or vote at the General Meeting through the Ballot Form. Members may participate in the General Meeting even after Remote E-voting but shall not be eligible to vote at the meeting. Voting, if exercised will be invalid and the vote caste through Remote E-voting will be considered. Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the AGM Notice carefully. In case members have any queries or issues regarding Remote e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions (FAQ) and Remote e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com.Shareholders may contact Registrar & Share Transfer Agent, M/s Skyline Financial Services Private Limited, contact no. 011- 40450193 to 97or their respective Depositories for registration/updation of their email IDs and other matters.

Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 21st September, 2024may obtain the user id and password by sending the request at helpdesk. evoting@cdslindia.com. However, if the person is already registered with CDSL for remote evoting then existing user id and password can be used for casting vole.

Members holding shares in physical form are requested to get their shares Dematerlised pursuant to SEBI Circular No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24 dated 08th June, 2018. Members who hold shares in physical mode and have not registered updated their email addresses/PAN/KYC with the Company, are requested to register / update the details in the prescribed Form ISR-1 and other relevant forms with the Registrar & Share Transfer Agent of the Company Skyline Financial Services Private Limited ("RTA"). Pursuant to the SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated March, 16, 2023, the Company has sent letters to the shareholders holding shares in physical form to furnish the KYC details which are not registered in their respective folios. Further the shareholders can also access the relevant Forms on Company's website at www.bpcapital.in Members holding shares in demat form are requested to update their email address/PAN/KYC details with their respective DPs.

Place: Sohna, Haryana

Date: 05th September,2024

For B.P. Capital Limited Sakshi Gupta

Company Secretary

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

"IMPORTANT"



मध्यप्रदेश लघ उद्योग निगम मर्यादित कार्यालय संपदा एवं निर्माण संभाग

आई.आई.डी.सी. प्लाजा, 39 सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.) दरभाष: 0751-2439024

क्रमांक : लंडेनि/निर्माण/सं.-ग्वा./2024-25/05 दिनांक : 03.09.2024

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्न कार्य की निविदा ई-टेण्डरिंग पद्धति (Online System) से वेबसाइट https://www.mptenders.gov.in पर आमंत्रित की जाती है। :- 1. अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भवन नई दिल्ली में रिनोवेशन का निर्माण कार्य लागत रु. 19.95.820/-। निविदा की बिड जमा करने की **अंतिम तिथि 10.09.2024 सायं 5.30 बजे।** निविदा की समस्त जानकारी उक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है। निविदा में संशोधन व परिवर्तन किया जाता है तो उसकी जानकारी मात्र उपरोक्त वेबसाइट पर दी जावेगी पथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा, बिना कोई कारण बताये निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है।

म.प्र. माध्यम/116247/2024 महाप्रबंधक (सं./नि.)

ANKA INDIA LIMITED

Regd. Off: 6, Legend Square, Sector 33, Gurugram - 122004 CIN: L74900HR1994PLC033268: Email id: response@ankaindia.com Phone no: 9820069933; 0124-2322570; website: www.ankaindia.com INFORMATION REGARDING THE 30" ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM" OR "THE MEETING") TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/ OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM) FACILITY

Notice is hereby given that the 30" AGM of Anka India Limited ("the Company") will be held on Monday, September 30", 2024, at 04:00 P.M IST, through VC/OAVM facility, in compliance in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 30 and Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos, 14/2020 dated 8" April, 2020, 17/2020 dated 13" April, 2020, 20/2020 dated 5" May, 2020, 02/2021 dated 13" January, 2021, 02/2022 dated 5 May, 2022, 10/2022 dated 28" December, 2022 and 9/2023 dated 25" September, 2023 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) read with SEBI Circular SEBI Circular No. SEBI/HO/CF D/PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7° October, 2023 which also has allowed listed entities to send their Annual Report in electronic mode (collectively referred to as Circulars) to transact the businesses that will be set forth in the Notice of the meeting. Electronic copies of the Notice convening 30" Annual General Meeting along with the Annual

Report for the Financial Year 2023-24 will be sent to all the Members whose email addresses are registered with the Company / Depository(les). The Notice and the Annual Report will also be available on the Company's website at (www.ankaindia.com), on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited at www.evotingindia.com Members can attend and participate in the 30" AGM through the VC / OAVM facility ONLY, as per

has been made to attend and participate in the 30" AGM of the Company in person. Members attending the Meeting through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In accordance with all the applicable laws, the Members will have an opportunity to cast their votes electronically on the businesses as set forth in the AGM Notice. The eligibility and manner

of voting through remote e-voting (before AGM or at the meeting) for Members holding shares in

physical mode and dematerialized mode will be provided in detail in the AGM Notice.

egistering mandate for receiving future dividend(s) electronically:

the details provided by the Company in the said Notice. Accordingly, please note that no provision

Manner of registering / updating email addresses: (a) Members holding shares in physical mode, who have not registered / updated their email addresses with the Company, are requested to register / update the same by writing to the Company with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card at response@ankaindia.com or to Alankit Assignments Limited at rta@alankit.com

Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered / updated their email addresses with their Depository Participants, are requested to register / update their email addresses with the Depository Participants with whom they maintain their demat

Members are requested to update their Bank details with their Depositories (for dematerialized and with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (for shares held physically) FOR ANKA INDIA LTD

To avoid any delay in the receipt of future dividend(s), as and when declared by the Company

ANU SHARMA PLACE: GURUGRAM DATED: 05.09.2024 Company Secretary

NORTHERN RAILWAY

CORRIGENDUM Ref: i) Tender Notice No.: 03/2024-2025 Dated: 10.04.2024

ii) Tender No.: 15235293 due on 05.11.2024

05.09.2024 to 05.11.2024

ORIANA POWER LIMITED CIN: L35990DL2013PLC248685 Registered Office: Flat No. 412A, Building No. 43, Chiranjiv Tower, Nehru Place, South Delhi, New Delhi, Delhi, India, 110019 Corporate Office: Third Floor Plot No 19 and 20, Sector 125 Noida, Amity University, Gautam Buddha Nagar, Dadri, Uttar Pradesh, India, 201313 Contact No.: +91-120-4114695, Email: cs@orianapower.com, Website: https://orianapower.com/

INFORMATION REGARDING E- VOTING Notice is hereby given that the Annual General Meeting ('AGM')of the Company is scheduled to be held on Friday September 27, 2024 at 01:00 PM IST through Video

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND

Conference ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM") without physical presence of the member at a common venue, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and allowed by circular No. 20/2020 dated May 05; 2020 read with circular no. 14/2020 dated April 08, 2020 circular no. 17/2020 dated April 13, 2020 circular no. 33/2020 dated September 28,2020, circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, circular no. 20/2021 dated December 08,2021, circular no. 03/2022 dated, May 05,2022, circular no. 11/2022, December 28,2022 and circular no. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry Of Corporate Affairs (MCA) and circular dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022 issued by SEBI ("Circulars").

In accordance with the aforesaid Circulars, notice of AGM is sent only to those members whose E-mail addresses are registered with the Company/ Depositaries. The dispatch of notice of AGM through E-mail has been completed on September 04, 2024. The notice of AGM is also available on Company's website https://orianapower.com/ and website of Stock Exchange i.e. National Stock Exchange Of India Limited at www.nseindia.com and website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at https://www.evoting.nsdl.com. In compliance with the provisions of Sec 108 of the Act read with rules made thereunder as amended from time to time and regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the company is providing E-voting facility (remote E-voting and E- voting during AGM) to members to cast their votes electronically through electronic voting system of NSDL. All

- All the businesses as stated in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
- The remote e-voting will commence at 09.00 AM (IST) on Tuesday, September 24, 2024 and will end at 5.00 PM (IST) on Thursday September 26, 2024. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. I. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or to attend
- AGM is Friday, September 20, 2024 ("Cut-off date"). In case a person has become a member of the Company after dispatch (only via mail)
- and Password for e-voting from NSDL by sending an e-mail request on https://www.evoting.nsdl.com/ or call at 1800102090/ 1800224430 may cast the vote by following the instructions and process of e-voting as provided in the notice of AGM and on website of NSDL i.e. https://www.evoting.nsdl.com In case of any gueries relating to e-voting, members/ beneficial owners may refer the Frequently Asked Question (FAQs) and e-voting user manual available for them at the

of AGM Notice, but on or before the cut-off date, such person may obtain the User ID

download section of https://www.evoting.nsdl.com or call at the above mentioned toll free number or send request to Ms. Prajakta Pawle - 022 2499 4561 or Ms. Sarita Mote 022 2499 4890 or evoting@nsdl.co.in the undersigned on the above mentioned contact details who is responsible to address the grievances connected with facility for voting by electronic means.

Once the e-vote on the resolution is cast by the members, they shall not be allowed to

- change it subsequently. The facility for e-voting during AGM is made available for the members who have not cast their vote by remote e-voting;
- The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM through VC/ OAVM but shall not be entitled to cast their vote again and; v. The person whose name is recorded in the register of members or in the register of
- beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during AGM;

The members who have not registered their e-mail address with the Company or

Depository are requested to register it by following the procedure as mentioned in the Notice of AGM. The manner of remote e-voting and e-voting during AGM for the members who hold shares in physical mode or demat mode or those who have not registered their e-mail addresses with the Company/ Depository Participant are provided in the Notice of By order of the Board of Directors of For ORIANA POWER LIMITED

> Managing Director DIN: 080033441

Rupal Gupta Place: New Delhi Date: 04.09.2024

Sd/-

financialexp.epapr.in

Date: 04/09/2024

The members may note that:

Place: Noida

New Delhi

POST OFFER ADVERTISEMENT TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF INERTIA STEEL LIMITED

("INERTIA"/ "ISL" / "TARGET COMPANY"/ "TC") (Corporate Identification No. L51900MH1984PLC033082) Registered Office: Shop No 155 Second Floor, Raghuleela Mall, Borsa Pada Road, Poiser Borivali West, Kandivali West, Mumbai, Maharashtra, India, 400067; Phone No.: +91-7030595007; Email id: contact@inertiasteel.com;

Open offer for acquisition of 31,14,488 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 26.00 % of the existing equity and voting share capital of the Target Company by Mr. Karbhari Pandurang Dhatrak (Acquirer-1), Mrs. Jayashree Karbhari Dhatrak (Acquirer-2) and Mr. Chetan Karbhari Dhatrak (Acquirer-3) (Acquirer-1, Acquirer-2 and Acquirer-3 hereinafter collectively referred to as the "Acquirers").

Website: www.inertiasteel.com

This Post offer Advertisement is being issued by Navigant Corporate Advisors Limited, The Manager to the offer, on behalf of the Acquirers, in connection with the offer made by the Acquirers in compliance with regulation 18 (12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulation, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulation, 2011").

The Detailed public statement ("DPS") pursuant to the Public Announcement ("PA") made by the Acquirers has appeared in Financial Express - English Daily (all editions); Jansatta Hindi Daily (all editions); Mumbai Lakshadeep - Marathi Daily (Mumbai edition) on 10th June, 2024.

Sr No.	Particulars	Proposed i Docu		Actual		
1.1.	Offer Price		er Equity are	Rs.18 per Equity Sh		
1.2.	Aggregate number of Shares tendered	31,14	,488	Nil		
1.3.	Aggregate number of Shares accepted	31,14	1,488	Nil		
1.4.	Size of the offer (Numbers of shares multiplied by Offer price per share)	Rs. 5,60	,60,784	Nil		
1.5.	Shareholding of the Acquirers before Preferential Issue and Public Announcement (No. & %)	NII (0.00%)		NII (0.00%)		
1.6.	Shares Acquired by way of Preferential Allotment Number % Fully Diluted Equity Share Capital	100000000000000000000000000000000000000	85,00,000 (70.96%)		85,00,000 (70.96%)	
1.7.	Shares Acquired by way of Open offer Number % Fully Diluted Equity Share Capital	31,14,488 (26.00%)		Nil (0.00%)		
1.8.	Shares Acquired after detailed Public Statement Number of Shares acquired Price of the shares acquired Months of the shares acquired	Not Applicable		Not Applicable		
1.9.	Post offer Shareholding of Acquirers Number Kelly Diluted Equity Share Capital	1,16,14,488 (96,96%)		85,00,000 (70.96%)		
1.10.		Pre-Offer	Post Offer	Pre-Offer	Post offer	
	Public Shareholders Number Kelly Diluted Equity Share Capital	2,32,803 (93.57%)*	3,64,312 (3.04%)	2,32,803 (93.57%)*	34,78,800 (29.04%)	

Computed as a %age of pre-preferential equity and voting share capital of ISL.

The Acquirers accepts full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for the fulfillment of his obligations as laid down by SEBI (SAST) Regulations, 2011

3. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the website of SEBI. Capitalized terms used in this advertisement and not define herein, shall have same

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRERS NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED

meaning assigned to them in the Letter of Offer dated 02.08.2024.

804, Meadows, Sahar Plaza Complex, J B Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai-400059. Tel No. +91 22 4120 4837, Email id: navigant@navigantcorp.com

Website: www.navigantcorp.com, SEBI Registration No: INM000012243 Contact person: Mr. Sarthak Villani

Place: Mumbai Date: September 04, 2024

ओरियाना पावर लिमिटेड

सीआईएन : L35990DL2013PLC248685 पंजीकृत कार्यालयः फ्लैट नंबर ४ १२ए, बिल्डिंग नंबर ४३, चिरंजीव टॉवर, नेहरू प्लेस , दक्षिण दिल्ली , नई दिल्ली , दिल्ली , भारत , 110 0 19 कॉर्पोरेट कार्यालयः तीसरी मंजिल , प्लॉट नंबर 19 और 20 , सैक्टर 125 नोएडा , अमेटी यूनिवर्सिटी , गौतम बुद्ध नगर , दादरी , उत्तर प्रदेश , भारत , 20 13 13 संपर्क नंबर: +91-120-4114695, ई-मेल: cs@orianapower.com वेबसाइट : https://orianapower.com/

वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई—वोटिंग के संबंध में जानकारी इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शुक्रवार 27 सितंबर 2024 को दीपहर 01:00 बजे आईएसटी वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी") / अन्य ऑडियो-विज्अल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से एक सामान्य रधल पर सदस्य की भौतिक उपस्थिति के बिना, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के प्रावधानों के अनुपालन में और परिपन्न संख्या 20 / 2020 दिनांक 05 मई, 2020 द्वारा अनुमत, परिपत्र संख्या 14 / 2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपन्न संख्या 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, परिपन्न संख्या ३९ / २०२० दिनांक ३१ दिसंबर, २०२० ०३ / २०२२ दिनांक ०५ मई २०२२, परिपन्न संख्या 11 / 2022, 28 दिसंबर 2022 और परिपन्न संख्या 09 / 2023 दिनांक 25 सितंबर 2023 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी और परिपन्न दिनांक 12 मई 2020, 15 जनवरी 2021 और 13 मई 2022 सेबी द्वारा जारी ("परिपत्र"), आयोजित होनी हैं।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक की सूचना केवल उन्हीं सदस्यों को भेजी जाती है, जिनकें ई-मेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं । वार्षिक आम बैठक की सुचना ई-मेल के माध्यम से भेजने का कार्य 04 सितंबर, 2024 को पूरा हो चुका है। वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट https://orianapower.com/ और स्टॉक एक्सबेंज यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेंड की वेबसाइट www.nseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.comपर भी उपलब्ध है अघिनियम की घारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, समय—समय पर संशोधित नियमों और सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार, कंपनी सदस्यों को एनएसडीएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने के लिए ई—वोटिंग सुविधा (रिमोट ई—वोटिंग और एजीएम के दौरान ई—वोटिंग) प्रदान कर रही है। सभी सदस्यों को सुचित

1. एजीएम की सुचना में बताए गए सभी व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के माध्यम से किए

. रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 को सुबह 09.00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और गुरुवार 26 सितंबर, 2024 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने या एजीएम में भाग लेने की पात्रता निर्धारित करने की कट—ऑफ तिथि शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 ("कट-ऑफ तिथि") है।

. यदि कोई व्यक्ति एजीएम नोटिस (केवल मेल के माध्यम से) के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन गया है, लेकिन कट-ऑफ तिथि को या उससे पहले, ऐसा व्यक्ति https://www.evoting.nsdl.com/

पर ई-मेल अनुरोध भेजकर या 1800102090 / 1800224430 पर कॉल करके एनएसडीएल से ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है, एजीएम के नोटिस और एनएसडीएल की वेबसाइट यानी https://www.evoting.nsdl.com पर दिए गए ई--वोटिंग के निर्देशों और प्रक्रिया का पालन करके वोट डाल सकता है। . ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य/लाभार्थी मालिक

https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उनके लिए उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्य्) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या उपर्युक्त टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री प्राजक्ता पायले – 022 2499 4561 या सुश्री सरिता मोटे – 022 2499 4890 या evoting@nsdl.co.in पर उपर्युक्त संपर्क विवरण पर अनुरोध भेज सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए जिम्मेदार हैं।

क. एक बार सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर ई—बोट डाल दिए जाने के बाद, उन्हें बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी

ख. एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविवा उन सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई गई है, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है: ग. जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट खाला है, वे वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भी

एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा और: घ, वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों | के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि तक दर्ज है, वह रिमोट ई-बोटिंग के साथ-साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

जिन सदस्यों ने कंपनी या डिपॉजिटरी के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि ये एजीएम की सुधना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके इसे पंजीकृत करें। एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग का तरीका उन सदस्यों के लिए है जो भौतिक मोड या डीमैट मोड में शेयर रखते हैं या जिन्होंने कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, एजीएम की सुचना में प्रदान किया गया है।

> निदेशक मंजल के आदेशानुसार ओरियाना पावर लिमिटेड के लिए हस्ता/-रूपल गुप्ता

विथि : 04.09.2024 प्रबंध निदेशक स्थान : नोएडा डीआईएन: 080 033441 जनसता | 5 सितंबर, 2024 |

एमपीडीएल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11/7, मञ्जूग रोड, सेक्टर-37, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 कॉर्पोरेट कार्वालय : युनिट नं. 12, जीएफ, मैग्नम टॉवर-1, सेक्टर-58, गोल्फ कोर्स एक्सटेशन, मुरुग्राम-122011, हरियाणा, दूरभाष । 0124-422234-35, ई-मेल आईडी : isc_mpdl@monnetgroup.com चेबसाइट : www.mpdl.co.in, सीआईएन : L70102HR2002PLC007001

वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों से आयोजित होने वाली 22वीं वार्षिक आम बैठक के लिए ईमेल आईडी के पंजीकरण हेतु सूचना

एतदहारा सुचित किया जाता है कि एजीएम नोटिस जिसे एजीएम बुलाने के लिए नियत समय में प्रसारित किया जाएगा, में निर्धारित व्यवसायों को पुरा करने के लिए एमपीडीएल लिमिटेड की 22वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को अपराह 03:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस ('वीसी') / अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय हारा जारी 08 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 13 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020, 05 मई, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 की 25 रिस्तंबर, 2023 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 और अन्य लागू परिपत्रों (सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र') और भारतीय प्रतिभृति एवं चिनिमय बोर्ड (सामृहिक रूप से 'सेबी परिपत्र') हारा जारी सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी।/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 के साथ पठित सेबी परिपत्र संख्या दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 के संबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 के अनुसार, कंपनियों को 30 सितंबर, 2024 तक वीडियो कॉन्फ्रेंस ('वीसी')/अन्य ऑडियो विज्अल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति है। इसलिए, उपरोक्त एमसीए और सेबी परिपन्नों के अनुसार, कंपनी की 22वीं एजीएम शक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को दोपहर 03:30 बजे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी।

ऊपर संदर्भित परिपत्रों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण सहित वार्षिक रिपोर्ट एजीएम की सूचना के साथ उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी, जिनके ईमेल पते कंपनी/कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट/संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियाँ के पास पंजीकृत हैं। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की कोई भौतिक प्रति किसी भी सदस्य को नहीं भेजी जाएगी, हालांकि वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति शेयरधारकों को अनुरोध करने पर भेजी जाएगी। सदस्य ध्यान दें कि एजीएम की सूचना और वर्ष 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.mpdl.co.in, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यानी एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड ('आरटीए') की वेबसाइट www.mcsregistrars.com पर भी उपलब्ध होगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के प्रयोजनार्थ गिना जाएगा।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ('रिमोट ई-वोटिंग') प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, केंपनी एजीएम के दौरान ई-योटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान कर रही है, जो एजीएम की सुचना में प्रदान की जाएगी।

ई-मेल पते को पंजीकृत/अपडेट करने का तरीकाः

ई-मेल पते के स्थायी पंजीकरण/अपडेट करने के लिए, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने की स्थिति में संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास और भौतिक रूप में शेयर रखने की स्थिति में कंपनी के आरटीए के साथ अनुरोध भेज सकते हैं। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य ईमेल आईडी admin@mcsregistrars.com पर प्रपत्र आईएसआर-1 की स्कैन की गई कॉपी और पैन कार्ड और आधार कार्ड आदि की स्थ-सत्यापित प्रति के साथ ई-मेल अनुरोध भेज सकते हैं। उक्त फॉर्म आईएसआर-1 कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक 22वीं एजीएम के उद्देश्य से शनिवार, 21 सितंबर, 2024 से शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अधिक जानकारी के लिए एजीएम की सुचना देखें।

रजीएम की सुचना और वार्षिक रिपोर्ट 2023-2024 शेयरधारकों को लागू कानूनों के अनुसार उनक पंजीकत ई-मेल पते पर नियत समय पर भेजी जाएगी।

एमपीडीएल लिमिटेड के लिए भृमिका चड्डा स्थानः गुरुग्राम कंपनी सचिव दिनांक: 04.09.2024

बी.पी. कैपिटल लिमिटेड सीआईएन नं.: L74899HR1994PLC072042

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नं.-138, रोज-का-मेओ औद्योगिक क्षेत्र, सोहना (जिला मेवात), हरियाणा-122103 फोनः 0124–2362471 ईमेलः bpcapitallimited@gmail.com, वेबसाइट : www.bpcapital.in वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर और

रिमोट ई-वोर्टिंग सूचना की सूचना

एतद्दवारा सुचित किया जाता है कि कंपनी की 31वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 28 सितंबर, 2024 को सुबह 10.00 बजे 138, रोज-का-मेओ, औद्योगिक क्षेत्र सोहना, जिला मेवात-122 103, हरियाणा में आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम की 02 सितंबर, 2024 की सुचना में निर्धारित व्यवसाय का संचालन किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट सभी सदस्यों को ०४ सितंबर, २०२४ को अनुमत मोड के माध्यम से भेज दी गई है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ-साथ इसके तहत बनाए गए लागू नियमों के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें एजीएम के उद्देश्य से रविवार, 22 सितंबर, 2024 से शनिवार, 28 सितंबर, 2024 तक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के प्लेटफॉर्म पर रिमोट ई—वोटिंग सुविधा के माध्यम से 02 सितंबर, 2024 की एजीएम सूचना में उल्लिखित सभी व्यावसायिक मदों के लेन-देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा प्रदान की है। रिमोट ई—वोटिंग 25 सितंबर, 2024 को सुबह 09:00 बजे शुरू होगी और 27 सितंबर, 2024 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। उक्त तिथि और समय के बाद किसी भी रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों के साथ वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.bpcapital.in और एजेंसी की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी प्रदर्शित की गई है। शनिवार, 21 सितंबर, 2024 तक शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य www.evotingindia.com पर सीडीएसएल के रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं या बैलट फॉर्म के माध्यम से आम बैठक में वोट कर सकते हैं। सदस्य रिमोट ई—वोटिंग के बाद भी आम बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन बैठक में वोट देने के पात्र नहीं होंगे। यदि मतदान किया जाता है तो वह अमान्य होगा और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोट पर विचार किया जाएगा। सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम नोटिस में छपे ई-वोटिंग से संबंधित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। यदि सदस्यों के पास रिमोट ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या समस्या है, तो वे सहायता अनुभाग के तहत www.evotingindia.com पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और रिमोट ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ई-मेल लिख सकते हैं। 011- 40450193 से 97 या अपने संबंधित डिपॉजिटरीज से अपने ईमेल आईडी के पंजीकरण / अद्यतनीकरण और अन्य मामलों के लिए संपर्क करें। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर खरीदता है और नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट—ऑफ तिथि यानी 21 सितंबर, 2024 तक शेयर रखता है, वह helpdesk. evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, अगर व्यक्ति रिमोट इवोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से ही पंजीकृत है, तो मौजदा युजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल वोट डालने के लिए

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे सेबी परिपत्र संख्या सेबी / एलएडी-एनआरओ / जीएन / 2018 / 24 दिनांक 08 जून, 2018 के अनुसार अपने शेयरों को डीमैटरियलाइज्ड करा लें। जो सदस्य भौतिक रूप में शेयर रखते हैं और उन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते / पैन / केवाईसी को पंजीकृत / अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ("आरटीए") के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ निर्धारित फॉर्म आईएसआर–1 और अन्य प्रासंगिक फॉर्म में विवरण पंजीकृतध्अपडेट करें। सेबी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / एमआईआरएसडी / एमआईआरएसडी-पीओडी-1 / पी / सीआईआर / 2023 / 3 7 दिनांक 16 मार्च, 2023 के अनुसार इसके अलावा शेयरधारक कंपनी की वेबसाइट www.bpcapital.in पर भी संबंधित फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी के साथ अपना ईमेल गता / पैन / केवाईसी विवरण अपडेट करें।

बी.पी. कैपिटल लिमिटेड के लिए हस्ताक्षरकर्ता / – स्थानः सोहना, हरियाणा साक्षी गुप्ता

कंपनी सचिव

यूनियत्व बैंक 🕼 Union Bank

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हरिद्वार (34210) शाखा पता: हरिद्वार मेन शाखा, रानीपुर मोड्, हरिद्वार. सम्पर्क नम्बर : 01334-227425 ਸੋਲ आईडी - UBIN0919306@unionbankofindia.bank

[नियम – 8(1)] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेत्)

अधोहस्ताक्षरी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हरिद्वार शाखा, रानीपुर मोड़, हरिद्वार के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्वितीय) अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 54) के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित 08–04–2021 जारी की थी, जिसमें कर्जदार (ए) श्री मोनिश अहमद, प्लॉट नंबर 19 एवं 20 का भाग, खसरा नंबर 441/2, महादेव पुरम कालोनी, फेज–3, रावली महदूद, ज्वालापुर, हरिद्वार–249407 उत्तराखंड (बी) श्री दानिश अहमद (सह–कर्जदार) सिडकुल बाईपास रोड, रावली महदूद, महादेव पुरम, फेज–3, हरिद्वार से सूचना में वर्णित बकाया राशि रू. 23,70,390.21 / – (रूपये तेईस लाख सत्तर हजार तीन सौ नब्बे तथा पैसे इक्कीस मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग

कर्जदार बकाया राशि चुकाने में विफल रहे हैं, एतदद्वारा कर्जदार तथा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पिटत उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा 29—08—2024 को ले लिया है।

एतदद्वारा कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करें तथा उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हरिद्वार शाखा, रानीपुर मोड़, हरिद्वार की बकाया राशि रू. 23,70,390.21 / — (रूपये तेईस लाख सत्तर हजार तीन सौ नब्बे तथा पैसे इक्कीस मात्र) तथा उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड – अचल सम्पत्ति प्लॉट नंबर 19 एवं 20 का भाग, खसरा नंबर 441 / 2, महादेव पुरम कालोनी, फेज-3, रावली महदूद, ज्वालापुर, हरिद्वार-249407

विनांक : 29-08-2024 स्थान : हरिद्वार पाचिक्त अधिकारी, युनियन बैंक ऑफ इंडिया हमिंग बर्ड एजुकेशन लिमिटेड

सीआईएन : L80221DL2010PLC207436 पंजीकृत कार्यालय : ए–95/3, द्वितीय तल , वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र , दिल्ली–110 0 52 ई-मेल:compliance@hummingbirdeducation.com वेबसाइट:www.hummingbirdeducation.com

> 14वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई-वोटिंग सूचना और बुक क्लोजर सूचना

कंपनी के सदस्यों की 14वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 28 सितंबर, 2024 को दोपहर 01.30 बजे 703-704, ए-09, जीडी-आईटीएल टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 में 14वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित कारोबार करने के लिए आयोजित

परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट ("वार्षिक रिपोर्ट") के साथ एजीएम नोटिस केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को मेजा गया है, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('डीपी') के साथ पंजीकृत हैं । सभी सदस्यों को एजीएम नोटिस ईमेल करने का काम 04 सितंबर, 2024 को पुरा हो गया है। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट https://www.hummingbirdeducation.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी

ई—बोटिंगः कंपनी अपने सदस्यों को, जो **शनिवार, 21 सितंबर, 2024** (कट—ऑफ तिथि) तक भौतिक या डीमैट रूप में इक्विटी शेयर रखते हैं. एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई ई—वोटिंग सेवाओं के माध्यम से, निम्नलिखित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से वोट करने की सुविधा प्रदान कर

रिमोट ई-वोटिंगः रिमोट ई-वोटिंग सुविधा 25 सितंबर, 2024 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगी और 27 सितंबर, 2024 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी और उसके बाद इसे निष्क्रिय कर दिया

केवल वे सदस्य, जिनके नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात 21 सितंबर, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे ही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने तथा एजीएम में भाग लेने और वोट देने के हकदार होंगे ।

कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन गया है और कट-ऑफ़ तिथि तक उसके पास शेयर हैं, वह बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और डिपॉजिटरीज को अनुरोध मेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है और एजीएम की सूचना में उल्लिखित निर्देशों का पालन करके रिमोट ई--वोटिंग के माध्यम से अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकता हैं और एजीएम में भाग ले सकता है और वोट कर सकता है ।

बुक क्लोजरः

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक एजीएम और लाभांश भूगतान के उद्देश्य से रविवार, 22 सितंबर, 2024 से शनिवार, 28 सितंबर, 2024 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगे ।

तिथि : 04.09.2024

स्थान: नई दिल्ली

हस्ता/-श्येता द्विवेदी कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

केन्छ। वैक 📣 Canara Bank

हौज़ खास शाखा (1445) दिल्ली-110016

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतदवारा सुचित किया जाता है कि केनरा बँक की **हीज खास शाखा** के साथ कई लॉकर लॉकर धारकों द्वारा खोले गए हैं और जिनके संबंध में लॉकर समझौते गायब हैं और साथ ही, लॉकर घारक पिछले लॉकर का संचालन नहीं कर रहे हैं। वर्षों की संख्या या लॉकर शुल्क के बकाया का भगतान नहीं कर रहे हैं।

那. 甘.	लॉकर धारक का नाम	का नाम लोकर नं. पता		लॉकर किराया देय से	बकाया राशि
1	श्रीमती चंदर प्रभा	999	ही-64 हीन खास 110016	अप्रैल 2018	₹ 7,493.46
2	पी प्रेम चंदर राव	604	बी-1/1195 वसंत कुंज 110016	अप्रैल 2018	₹. 8,410.00
3	आर एस जायसवाल	384	10 डीप स्पिनी, विडेनहम बेडफोर्ड एमके 40 4क्यूपी, इंग्लैंड एमके 40 4क्यूपी	अप्रैल 2018	₹.9,440
4	आर के खन्ना	186	कार्यकारी निदेशक एच यू ही सी ओ इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली 110016	अप्रैल 2018	₹.7080.00
5	राजीव डार	767	101-प्रोस्पेक्ट मीरा 616, मॉस्क्रे, रूस 111111	अप्रैल 2018	रु.11,800
6	सत्राजीत चौषरी	42	सी/ओ ओमीइन्वेस्ट, पी बीएक्स 3886, रुवी मस्कट पोस्ट कोड 112 ओमान 112	अप्रैल 2018	₹. 11,800
7	विमला बेरी	174	बी-4 हीज खास नई दिल्ली 110016	अप्रैल 2018	5. 8,804.80

की बकाया राशि अदा करें तथा नया लॉकर एप्रीमेंट करें अथवा अपना सामान निकालें। यदि किसी लॉकर के संबंध में कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है. तो बैंक लॉकर जुलक के बकाया की वसूली के लिए आगे की कार्रवाई के लिए विवश होगा। लॉकर शुल्क के बकाया की वसूली के लिए लॉकर की सामग्री पर अपना ग्रहणाधिकार निष्पादित स्थानः नई दिल्ली देनांक: 04.09.2024 शाखा प्रबंधक

के 15 दिन की अवधि के मीतर संबंधित शाखाओं में लॉकर के संबंध में पुष्ट प्रमाण जैसेकि पासपोर्ट, आधार कार्ड और निवास का प्रमाण इत्यादि के साथ पदारें, लॉकर

"IMPORTANT" Whilst care is taken prior to

हमिंग बर्ड एजुकेशन लिमिटेड के लिए

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies. associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Best Agrolife Limited **BEST AGROLIFE LIMITED**

CIN:L74110DL1992PLC116773

Regd. & Corporate Office: B-4, Bhagwan Dass Nagar, East Punjabi Bagh, New Delhi-110026 Ph: 011-45803300 | Email: info@bestagrolife.com | Website: www.bestagrolife.com INFORMATION REGARDING 33RD ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and rules made

thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the General Circulars 2/2022 and 19/2021, other circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated Jan 5, 2023 issued by SEBI (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), the 33rd Annual General Meeting ('AGM') of the Members of BEST AGROLIFE LIMITED will be held on Monday, September 30, 2024 at 12:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the businesses set forth in the Notice of AGM. Members attending the AGM through VC / OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. In accordance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of AGM and the Financial

Statements for the Financial Year 2023-24 along with Reports of the Board of Directors and the Auditors and other documents required to be attached thereto (collectively referred as 'Annual Report') will be sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants (DPs). The instructions for joining and manner of participation in the AGM has been provided in the Notice of the AGM. Members, who are holding shares in physical/ electronic form and their e-mail addresses are not

registered with the Company/ their respective Depository Participants, are requested to register their e-mail addresses at the earliest by sending scanned copy of a duly signed letter by the Members mentioning their name, complete address, folio number, number of shares held with the Company along with self-attested scanned copy of the PAN Card and self-attested scanned copy of any one of the following documents viz. Aadhar Card, Driving Licence, Election Card, Passport, utility bill or any other Government document in support of the address proof of the Members as registered with the Company for receiving the Annual Report 2023-24 along with the AGM Notice by email to info@bestagrolife.com or info@skylinerta.com. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participants. The shareholders may also contact to the Company at our Corporate Office in case of any clarification to register their email Members holding shares in physical form who wish to avail NECS facility may authorize the Company

with their NECS mandate in the prescribed form, which can be downloaded from the Company's website www.bestagrolife.com and the requests for payment of dividend through NECS should be sent latest by 23rd September, 2024 at info@bestagrolife.com and members holding shares in demat form who wish to avail NECS facility, may send mandate in the prescribed form to their respective Depository The Company is providing remote e-voting facility to all its members to cast their votes on the resolutions

set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is also providing the facility of voting through e-voting system during the AGM. Detailed procedure for casting votes through remote e-voting/ e-voting

The Company has fixed the record date September 23, 2024 for the purpose of determining the member entitled for receiving dividend for the Financial Year 2023-24 and the said notice is also available on the website of the company at www.bestagrolife.com The Notice of the AGM along with Annual Report will be placed on the website of the Company i.e.

www.bestagrolife.com and on the website(s) of Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com. For BESTAGROLIFE LIMITED

अंचल शस्त्र केन्द्र, प्रथम तल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

ई-मेल : zs8343@pnb.co.in

Place: New Delhi Date: September, 04 2024

Astha Wahi CS & Compliance Officer

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

ऋणधारकों: श्री शिवेन्द्र प्रकाश यादव, श्रीमती आशा यादव, प्रकाश फुटविअर (प्रॉस्पेक्ट नं 813656) प्रतिभृत परिसम्पत्तिः प्लॉट नं. २, खसरा नं. 1602, पाण्डेय वाला ज्वालापुर, हरिद्वार,

उत्तराखंड-249407, माप 3478 वर्ग फीट का कब्जा लेने के अनुपालन में जो ऋणधारकों/प्राधिकृत अधिकारी से बकाया राशि की वसूली के लिये सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत आईआईएफएल होम फाइनांस लिमिटेड (आईआईएफएल-एचएफएल के प्राधिकत अधिकारी उक्त ऋणधारकों को एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि 7 दिनों के भीतर भौतिक कब्जा लेने के

समय में प्रतिभृत परिसम्पत्ति में पड़ी घरेल सामग्रियों को हटा लें अन्यथा आईआईएफएल एचएफएल किसी भी परिस्थिति में सम्पत्ति को हुई किसी भी क्षति के लिये उत्तरदायी नहीं होगा। एतदुद्वारा ऋणधारकों को पुनः सचित किया जाता है कि यदि वे उक्त सामग्रियों को प्राप्त करने में विफल होते हैं तो कानुन के अनुसार उसकी बिक्री कर दी जायेगी। विस्तृत विवरणों के लिये सोमवार से शुक्रवार तक 09.30 बजे से 18.00 बजे तक टोल फ्री नं

1800 2672 499 पर सम्पर्क करें या auction.hl@iifl.com पर ईमेल करें। कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गृडगाँव हरियाणा-122015 हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी

स्थानः हरिदार तिथि: 5 सित. 2024

(आईआईएफएल-एचएफएल) (पूर्व में इण्डिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनांस लि. विदित)

> ऋण वसूली न्यायाधिकरण—।। दिल्ली चतर्थ तल. जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग नई दिल्ली-110001 बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋण की

> वसुली अधिनियम, 1993 की घारा 19(4) के साथ

आईआईएफएल होम फाइनांस लिमिटेड

पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावली, 1993) के नियम 12 एवं 13 के तहत टी.ए. सं. 444/2022 दिनांक 27-05-2024 पंजाब नैशनल बैंक

श्री प्रदीप कौशिक एवं अन्य सेवा में.

प्रतिवादी डी1. श्री प्रदीप कौशिक पुत्र श्री रामकिशन कौशिक, मकान नं. 982 / 20 ब्लॉक-एल-1 संगम विहार दिल्ली - 62 डी2. मैसर्स एम आर डी डी डेवलपर प्रा. लि.,

एनएच-68 मेरठ रोड जैन टख्ब फैक्ट्री के सामने गाजियाबाद यूपी 201010 जबकि उपरोक्त आवेदक ने आपके विरुद्ध रुपये 29,43,966/- (रूपये जनतीस लाख तैतालीस

हजार नी सी छियासठ मात्र) की वसूली हेत् एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषजनक रूप से यह दर्शाया जा चका है कि आपको साबारण रूप से सूचना दियाँ जाना संभव नहीं है, इसलिए विज्ञापने के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक 23-09-2024 को पूर्वा. 10.30 बजे माननीय न्यायाधिकरण के मझ उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस

न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपरिथति में सभी मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भौतिक के माध्यम से लिया जाएगा और उस उदेश्य के

(i) सभी अधिवक्ता/वादी सिस्को वेबेक्स एप्लीकेशन / सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे;

(ii) माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्टार हारा प्राप्त की जाने वाली सुनवाई के मामलों की अगली तारीख के लिए "मीटिंग आईडी" और "पासवर्ड" DRT के ऑफिशियल पोर्टल अर्थात drt.gov.in की दैनिक वाद की सूची में प्रदर्शित कियां जाएगा। (iii) किसी भी जानकारी हेतु एडवोकेट्स/

लिटिगेंट्स संबंधित अधिकारी से फोन 23748478 पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायधिकरण की मोहर के तहत 27 मई, 2024 को दिया गया।

प्राधिकरण के आदेशानुसार, अनुमाग अधिकारी, डीआरटी-।।, दिल्ली



पंजाब मेशनल बैंक punjab national bank ...the name you can BANK upon!भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

दिनांकः 05 सितम्बर, 2024

अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस, आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित हैं, का सांकेतिक / वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ हैं, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची (A) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा शाखा का नामः (A) आरक्षित मूल्य सुरक्षित 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि नीलामी आंचलिक शास्त्र केंद्र, दिल्ली लेनदारों बंधक रखी गई (B) बकाया राशि तक की B) ईएमडी (ईएमडी जमा को ज्ञात खाते का नामः अचल संपत्ति का विवरण/ (C) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा करने की अंतिम तिथि) तिथि एवं सं. एन्कम्ब्रेन्स का मैसर्स गाधींगलाज एग्रो एल्कोकेम लिमिटेड 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि मालिक का नाम (संपत्तियों का बंधककर्ता) विवरण समय (D) कब्जा की स्थिति उधारकर्ता / गारंटर का नाम और पताः (C) बोली वृद्धि राशि सांकेतिक / भौतिक / रचनात्मक 27-09-2024 ज्ञात नहीं मैसर्स गार्थींगलाज एग्रो एल्कोकेम लिमिटेड (उधारकर्ता) पताः 17/ए, डब्ल्यूईए, गुरुद्वारा रोड, सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि होटल अर्पित पैलेस, गुरुद्वारा रोड, करोल बाग, (A) 05.04.2018 (A) 24.04 करोड़ होटल अर्पित पैलेस, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005 म्यनिसीपल नं. XVI/10399 कल क्षेत्रफल 435.00 वर्ग गज – खसरा नं. 1938 / 1258, प्लॉट (B) ♥. 52,43,31,059.26 (B) v. 2.41 करोड पूर्वांड 11.00 मैसर्स अतुल कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. (कॉर्पोरेट गारंटर), पताः 17/ए, डब्ल्यूईए, गुरुद्वारा रोड, होटल नं. 01 क्षेत्रफल 409.00 वर्ग गज, प्लॉट नं. 1 / 1, खसरा नं. 1939 / 1258, क्षेत्रफल 26.00 वर्ग दिनांक 30,01,2018 तक (26-09-2024) बजे से अपीइ अर्पित पैलेस, करोल बाग, नई दिल्ली — 110005 गज, ब्लॉक 17-ए, डब्ल्यू ई ए करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स अतुल (C) 05.07.2018 04.00 बजे (C) रु. 1.00 लाख कंस्टक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है (D) सांकेतिक

ई--नीलामी बिकी के सक्रिप्त नियम एवं शर्ते : बिकी, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्षित नियमों एवं शर्तों के क्योन होगी। (2) ई--नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म (https://ebkray.in) ई--नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेंड जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट १. तीसरी मंजिल, VIOS कमर्शियल टॉवर, वडाला ट्रक टर्मिनल के पास, वडाला ईस्ट मुंबई-400037 (हेल्पडेस्क नं. 91 8291220220, ईमेल आईडी: support.ebkray@psballiance.com) हारा प्रदान किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं / खरीदारों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://ebkray.in पर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है। यह सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रदर्शन / प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा । (3) बिक्री की सामान्य शर्तों और नियमों से युक्त बिक्री नोटिस निम्नलिखित देवसाइटों / येव पेज पोर्टल (1) https://ebkray.in (2) www.pnbindia.in पर उपलब्ध / प्रकाशित है । (4) सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को बिक्री प्रतिफल का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-1ए के अंतर्गत टीडीएस के अधीन होगा तथा सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि का शुंप 75% जमा करने / बोली राशि की पूर्ण जमा करने / बोली राशि की पूर्ण जमा करने के समय ही टीडीएस का मुगतान किया जाना है। (5) संपत्तियों को "जहां है जैसी है" के आधार पर येथा जा रहा है। (6) उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विकरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी चूटि, गलत बयान या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। (7) सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के तहत नोटिस, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 8(8) के साथ क्रम संख्या 08 तक सभी मामलों में जारी किया गया है (8) बिक्री की विस्तृत शर्तों के लिए, कृपया https://ebkray.in & www.pnbindia.in देखें। सरफासी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत बिक्री सूचना

दिनांक: 04-09-2024, स्थान: नई दिल्ली

www.readwhere.com